

आज दिनांक 12 जून, 2017 को सायं 07:00 बजे से मर्चेट्स चैम्बर के पूर्व चीफ पैट्रन स्व. डॉ० गौर हरी जी सिंघानिया के 82वीं सालगिरह के अवसर पर सर पदमपत सिंघानिया सभागार, मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक कार्यक्रम “भूले-बिसरे गीत” का आयोजन किया गया।

डॉ. सिंघानिया जी ने अपने जीवन-काल में अनेकों विद्यालय, संस्थानों तथा अस्पतालों की स्थापना किया एवं इसके साथ ही साथ स्व. डॉ. सिंघानिया जी की सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं खेलों को बढ़ावा देने में अत्यधिक योगदान दिया। डॉ० गौर हरी सिंघानिया का कानपुर वासियों तथा कानपुर से अथाह प्रेम था। अपने जीवन काल में वे कानपुर को प्रदेश व देश में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने की दिशा में कार्यरत रहे।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में स्व. डॉ० गौर हरी जी सिंघानिया के चित्र पर डॉ. आई.एम. रोहतगी, डॉ. आर.जी. बागला, मर्चेट्स चैम्बर के अध्यक्ष श्री पदम कुमार जैन, मर्चेट्स चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री बी.के. लाहोटी, श्री एक. के. सराऊगी, श्री अनिल अग्रवाल एवं अन्य सदस्यों द्वारा पर माल्यार्पण किया गया तथा गायन समारोह का आगाज “गुरुः ब्रम्हा गुरुः विष्णु गुरुः देवो महेश्वरा, गुरुः शाक्षात परब्रम्हा तस्मै श्री गुरुवे नमः” श्लोक से किया गया।

मर्चेट्स चैम्बर के अध्यक्ष श्री पदम कुमार जैन ने आये हुए समस्त अतिथियों एवं मीडिया कर्मियों का स्वागत किया और कहा यह सांस्कृतिक कार्यक्रम डॉ. गौर जी हरी सिंघानिया की वर्षगाँठ के अवसर पर आयोजित कर रहे हैं।

उक्त कार्यक्रम में कानपुर के निम्नलिखित नवोदित कलाकारों द्वारा दशकों पहले प्रचलित गीतों पर प्रस्तुति दी गयी, जिनको मुख्यत इंदु ठाकुर, अरुण दास, शिवानी, अदिति, दिलीप, राम भाटिया ने आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी, ठंडी हवा काली घटा, चाहूँगा मैं तुम्हे सांझ सवेरे, सईयाँ दिल में आना रे, छोड़ दो आँचल जमाना क्या कहेगा तथा ये मेरा दीवानापन है जैसे अन्य प्रसिद्ध गीतों को गाया। कार्यक्रम में बजाए गए वाद्य यंत्रों में श्री राजा चौधरी ने, श्री के.के. मिश्रा ने, तथा श्री मनीष कुमार ने गायन कलाकारों का सहयोग दिया।

डॉ. आई. एम. रोहतगी व डॉ. ए.एस. प्रसाद ने भी अपनी प्रस्तुति दिया।

श्री स्वतंत्र सिंह ने सांस्कृतिक कार्यक्रम “भूले बिसरे गीत” का संचालन किया।

**सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य :** डॉ. जे. एन. गुप्ता, श्री प्रेम मनोहर गुप्ता, श्री एस.सी. गर्ग, श्री उमेश पाण्डेय, श्री आर. पी. तोमर, श्री वाई.एस. गर्ग, मर्चेट्स चैम्बर के सदस्यगण तथा कानपुर के अन्य प्रगणमान्य नागरिक सपरिवार उपस्थित हुए तथा भूले बिसरे गीतों का आनंद लिया।

सधन्यवाद

मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश